

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

Tel.: 0120-2406450 | Email: info@skywebindia.in | Web: www.skywebindia.in

CIN No.: L72200DL1985PLC019763

Ref. No. - SIL/CO/SE/2025-26/39

7th October, 2025

To
Listing Department,
Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,
Piramal Agastya Corporate Park,
L.B.S Road, Kurla West,
Mumbai - 400 070

SYMBOL: SKYWEB

<u>Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u>

<u>Regulations, 2015: Newspaper Advertisement regarding opening of special window for relodgement of transfer requests of physical shares</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published by the Company in following newspapers today i.e. on 7th October, 2025 regarding the opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares:

- 1. Financial Express (English) and
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly,

For Skyweb Infotech Limited

Akshit Singla
Company Secretary & Compliance Officer

Industrial Estate, New Delhi 110020

1240

APPENDIX-IV-A [See Proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES NOTICE

Auction-cum-Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act), 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgager(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor i.e. M/s Religare Finvest Ltd (in short 'RFL'), the physical possession of which has been taken by the authorized officer of RFL, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE" basis at through E-Auction. The E - Auction shall be conducted only through "Online Electronic Bidding" through website https://www.bankeauctions.com/ on 12.11.2025 from 12.30 P.M. to 01.30 P.M with unlimited extensions of 5 minutes duration each for recovery of due as per Demand Notice dated 20.01.2017 along with further interest, costs and other charges, due to the RFL from the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) namely M/S. Golden Diamond Estates Pvt Ltd., M/S. Vikram Bakshi & Co. P. Ltd., Mr. Vikram Bakshi, Mrs. Madhurima Bakshi, M/S. Brite India Pvt Ltd., M/S. Jupiter Estates & Builders Pvt Ltd., M/S. Panipat Properties Pvt Ltd., M/S. Karmyogi Finlease Pvt Ltd., M/S. Kalanidhi International Pvt Ltd. The reserve price will be Rs.6,13,00,000/- (Rupees Six Crore Thirteen Lakh Only) for the property details of the same mentioned in below table:

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES	Reserve Price	EMD Amount
All that pleace and parcel of property First floor portion without roof rights, Area Admeasuring 1661 Sq.Ft., Out of 1/9th undivided share of a leasehold built up property bearing Municipal Nos. 9285, 9286, 9287, 9290-A, 9290, 9201-A, 9291-B, 9288, 9289, 9288-A, 9288-B, 1/150 and 1/150-A with back joint open compound and garage, along with 1/9th undivided, indivisible and impartible leasehold rights in land underneath measuring 0.712 acres or 31013.38 8q. Ft. situated at Block N, Outer Circus, Connaught Circus, New Delhi.	Rs. 6,13,00,000/- (Rupees Six Crore Thirteen Lakh Only)	Rs. 61,30,000/- (Rupees Sixty One Lakh Thirty Thousand Only)

secured asset to be sold. Interested parties should make their enquiries from the office of NDMC. New Delhi at own assessment of the secured asset to their satisfaction. Secured Creditor (RFL) does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the fitness/title of the aforesaid secured asset. Other Details of Sale:

- 1. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Secured Creditor's website i.e., www.religarefinvest.com
- 2. For details about E-Auction, the intending bidders may contact M/s. C1 India Pvt Ltd through Mr. Dharani Krishna Tel. No.: +91 7291971124,25,26 and Mobile +91-9948182222; email id andhra@c1india.com.
- 3. The interested parties may contact the following Authorized Officer Mr. Umesh Bhardwaj, Mob. NO. 9717693875, E-mail id: umesh.bhardwaj@religare.com for further details/ clarifications and for submitting their application/Bid. Dated: 07.10.2025 **Authorised Officer**

Religare Finyest Limited Place: New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

OSBI

Public Notice

default in Gold Loan taken by Shri Sanjib Debrey, son of Shri Subhash Debrey, resident of Flat No. 12, Sitaram Apartment, Plot No. 102. IP Extension. Delhi-110092. his gold ornaments will be auctioned on 09-10-2025, Thursday, at 4 PM.

Venue of Auction: State Bank of India, Mayur Vihar Phase-2 Branch, Near Neelam Mata Mandir, Delhi-110091

If the borrower deposits the outstanding

balance, including interest, before 4 PM on Thursday, 09-10-2025, the auction will be considered cancelled/postponed. For more details, contact the branch.

Before Debts Recovery Tribunal-I, Delhi 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

T.A. No. 3332/2022 UNION BANK OF INDIA

M/S V LOGISTICS AND ANR

(1) M/S V LOGISTICS THROUGH ITS PROP. SHRI GAURAV BAREJA S/O SHRI TILAK RAJ BAREJA, R/O BM-80, WEST SHALIMAR BAGH, DELHI

ALSO AT: 104 DSIDC SCHEME I, PHASE-II OKHLA INDUSTRIAL AREA, DELHI 110020 ALSO AT: FLAT NO BH-22,POORVI SHALIMAR BAGH, DELHI 110088 (2) SMT PRITI BAREJA W/O SHRI GAURAV BAREJA R/O BM-80. WEST

SHALIMAR BAGH, DELHI


Whereas the above-named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 78,59,463.15 (RUPEES SEVENTY-EIGHT LAKHS FIFTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY-THREE AND FIFTEEN PAISA ONLY) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 17.10.2025 at 10.30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website www.tribunal.gov.in Phone Number: 011-23748473).

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-(i) All the Advocates / Litigants shall download the "Cisco Webex" application / Software; 'Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the Public Notice

(iii) In any exigency qua that, the Advocates Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473. Given under my hand and seal of the Tribunal

on this 29th May, 2025.



(T) IDBI BANK

IDBI BANK LTD, Retail Recovery, 4/65 Ground Floor, Karol Bagh New Delhi 110005 PH No- 011 46465263, 66083001, 9810449799

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 The Bank Issued demand notices to the following borrower/Co-borrower/Guarantor on the date mentioned against their name calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notice. Since, they failed to repay the amount, notice is hereby given to them and to the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described hereir below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8(1) of the said Rules on the dates mentioned against the name of the borrower.

The borrower, in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-borrower/ Guarantor	Date Demand Notice	Date of Symbolic Possession	Description of Mortgaged Property	Amount O/s as mentioned in the notice u/s 13(2)	
1.	Mr. Naresh Kumar ("Borrower") and Mrs. Sunil W/o Naresh Kumar (Co Borrower)	21.06.2025	04.10.2025	Tower No. 3C, Grand Square Sector 61, Kundli,	Housing Loan of Rs.34,28,816/- (Rupees Thirt Four Lakh, Twenty Eight Thousand, Eight Hundre Sixteen Only) as on 01.06.2025, together wit further interest thereon with effect from 02.06.2025	
Date: 07.10.2025, Place: New Delhi Sd./-, Authorised Officer, IDBI Bank Ltd						

केनरा बैंक 🛕 Canara Bank

NOTICE

Recovery Section, Regional Office Plot no. 39, 1st Floor, Near Bohra Hyundai, Neelam-Bata Road, Faridabad

Date of

Demand

Notice

30.09.2025

Date of

NPA

Date of

NPA

28.09.2025

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank Issued Demand Notice U/S 13(2) o SARFAESI ACT 2002 to the Borrower / Guarantor / Mortgagor herein in below mentioned consequent upon the dispatch of each notices through registered post and return back undelivered from the borrower/guarantor/mortgagor address. Through this publication they are hereby called upon to repay the amount within 60 days from the date of publication for said notice failing which, bank will take the possession of immovable and movable property/ies and will sell it through the process in exercise of powers conferred U/S 13(2) read with the rule 8 and 9 of the Security Interest (Enrolment) Rules 2002. The borrower / guarantor / mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the immovable / movable property/ies and any dealing with the immovable / movable property/les mentioned below will be subject to the charge of Canara Bank for the outstanding amounts and Interest thereon & other charges

Name and Address of Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of the	Amt. Due as per	Date of
	Movable / Immovable Properties	Demand Notice	Demand
Branch	Name of Title Holder: Sh Pramod S/o Bhagwan Dass	(Rupees Thirty takns sixty one)	Notice 30.09.2025
Borrower: 1. M/s Nirankari Communication Prop- Mr. Pramod S/o Bhagwan Dass Opp Bikaner Sweets Near	Immovable: Property /House bearing its M.C. Hodal No 47/4 to the extent of 4/5 share	together with further interest	NPA 23.09.2025
Kali Murti Hodal, Distt Palwal, haryana-	Raghunath Mandir, Kajiwada Mohalla Ward	No 1, Hodal, within the limits of	MC Hodal,
121106. 2,mr. Pramod S/o Bhagwan Dass	Tehsil Hodal Distt. Palwal. Haryana-12110i	6. Bounded as under:- East by	- House of

Ward No. 1, Kajiwada Mohalla,hodal Distt Raghubir, Tulla, Dilbag, West: - Gali and House of Raghubir, North by:- Property of Raghubir and House of Raghubir, North by:- Property of Raghubir. Mr. Shyam Lal S/o Lakhmi Chandh No and South by:-Property of Narender. Distt Palwal, Haryana-121106.

FARIDABAD - II (18214) BRANCH Borrower: 1. Mr. Ruzin Wadhwa S/b Sh Pawan

121102 Mob No- 9999993631 Co-borrower 1.mr. plot nos 3,4 & 5 area measuring 201.50 sq together with further interes Pawan Wadhwa SoLate Sh Roshan Lai Wadhwa iyards situated at ward no 9, Mohan a Road and incidental expenses H No 472 Sector 15 A Faridabad, Haryana-121102 Ballabhgarh and later FCA No costs PALWAL (2328) BRANCH

Borrower:1. Mrs. Nisha Rani W/o Niranjan Lal

Haryana - 121102 FARIDABAD Sec-16 BRANCH

121102. Guarantor 2. Mr. Rajesh Goel S/o Borrower:1, Mr. Chhangur Chauhan S/o S/o Shalik Chauhan Shalik Chauhan H No 3244, 22 Feet Road, Immovable: Residential Property on six and paisa eight only Parwatiya Colony Sector 22 Faridabad Hr. 158.33 sq.yd plot/House Ni 3427, with full together with further interes 121001 Mob- 9891520859 Guarantor 2 basement in Gall no 127/ opp. Ranbir and incidental expenses.

No 3244, 22 Feet Road, Parwatiya Colony Parvatiya Colony Faridabad, with the following boundaries: North: 28.09.2025 Sector 22 Faridabad HR -121001 Mob-Canara Bank, HODAL (3398) Branch

Borrower:1. M/s Vishwakarma Service Immovable:Khewat/Khatoni No .258/289 Centre Prop-sukhdev So Ramjilal Village Rect.No 47, Killa No 25/1/2(2-3) measuring further interest and incidenta Karman Border, Hodal District Palwal, 02 Kanal 03 Maria situated with the revenue expenses, costs. Haryana-121106 Sukhdev So Ramjilal Near estate of village Karman, Tehsil Hodal Disti Baba Mandir Karman Karman Mohalla, Palwal and same is bounded as under - Boundaries: East: N H-2(Agra- 30.01.2016 Teshil Hodal Distr Palwal Haryana-121106

Guarantor Ramjilal S/o Sh Roopa Village
Karman Border, Hodal District Palwal,

South: Ch.DeviLal Park.

Date: 07.10.2025

310, ward No -1, Kaji Wada Mohalla, Hodal Distt Palwal Haryana-121102 2. Mr. Hitesh Garg S/o Daulat Ram Krishna Colony, Hodal Rs 2.16.438.11 Name of Title Holder: Mr. Rameshwar Lal Rupees Two lakhs sixteen Mendiratta S/o Late Sh Ganesh Dass thousand four hundred thirty Wadhwa HNo 472 Sector 15 A Fandabad, Haryana- Immovable: All the part and parcel of the eight and paisa eleven Only

Guarantor 2. Mr. Rameshwar Lal Mendiratta Sto 7572, Mohana Road Ballabhgarh in the name of Dr Rameshwar Lal 28.09.2025 Late Sh Ganesh Dass H No 103 Sector -9
Faridabad Ramesh Nursing Home, Mohna Road
Mendiratta. Bounded: On the North By: Brahmin Dharamshalla ,On the South By: Main
Rallahnarh Faridabad Harvana-121102

Mendiratta. Bounded: On the North By: Brahmin Dharamshalla ,On the South By: Main
Mohana Road ,On the East By: Side Gali, On the West By: Sunil Medicos. Name of Title Holder: Nisha Rani W/o Sh. Date of (Rupees Three lakhs sixteen Demand thousand three hundred twenty Notice Niranjan Lal H no DQ 250 Ward 17, Dev Immovable: Residential Property of Smt. nine and paisa forty six only 30.09.2025

Nagar- Palwal, Distt Palwal Haryana- Nisha Rani W/o Shri Niranjan Lal, site together with further interes 121102 Co-borrower 1. Mr. Niranjan Lai S/o Situated at property No 3570 A, Mauza and incidental expenses, Gyasi Ram Hno Dq 250 Ward 17, Dev Palwal Inside Had Nagar Parshad Tai costs. Nagar- Palwal, Distt Palwal Haryana- Mohalla Old City Palwal, Teshil & Distt Palwal Haryana, Boundaries: Tek Chand Goel Gupta Ganj, Palwal East: House of Bhagwat Swaroop, West: Public Road, North: House of Indar, South: House of Vijay Kumar.

Name of Title Holder: Chhangur Chauhan Mrs Suchui Devi W/o Chhangur Chauhan H Building Material Supplier in Ward no 6, costs.

Other property, South: Rasta 15" wide, East: House No MCF-3428, West: Rasta 22" wide. Name of Title Holder: Mr.Ramji Lal S/o Sh.Roopa

Haryana-121106 Mohar Ram Near Baba Mandir Karman Karman Mohalla, Teshil Hodal Distt Palwal Haryana-121106

Place: Faridabad

Date of Rupees Five lakhs twenty five Demand thousand seven hundred fort Notice 30.09,2025 Date of NPA. Rs 6,89,248.00 Date of Rupees Six lakhs eighty nine Demand

Sd/- Authorised Officer, Canara Bank

thousand two hundred forty Notice 30.09.2025 Date of

Hodal Punhana Road Gheeda Mod. 106.09.2024 Soniya W/o Deepka (proprietor) Ward No 6. Loan No - 170000406706 Near Water Tank, Laxmi Nagar, Punhana, Mewat, Haryana - 122508 Sh. Deepak Kumar (guarantor) S/o Sh Rajender Kumar Ward No 6, Near Water Tank, Laxmi Nagar, Punhana, Mewat, Haryana-122508

Loan No - 170009784562 Borrower:1, M/s Bansal Metal (prop Firm) | Movable:Stock - Rs. 25.00 Lakh as on Dt Miovable:Stock-Rs, 5.00 Lakh

Name of Title Holder: M/s Bansal Metal

Name of Title Holder: Mr. Deepak Kumar, Loan No - 170000406706, Immovable: Commercial

Sd/- Authorised Officer, Canara Bank

Reg. Office: PNA House, First Floor, 57 and 57/1,
MIDC, Andheri (E), Mumbai- 400093, Website: www.indusind.com. (Under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Substituted Service Of Notice U/s.13 (2) Of Securitisation

Total Outstanding Dues | Loan Account No.

PLE00262N

Date of NPA:

05/08/2025

Date of Demand

Notice

26/09/2025

NPA Date

Notice Date

15-09-2025

24-09-2025

Place: New Delhi

(INR) as on below date

INR.11.85.583.30/-

(Rupees Eleven Lakh

Eighty-Five Thousand

Five Hundred Eighty-

Three and Paisa Thirty

Only) is still due and

payable by you as of

11.08.2025

O/s As per

13(2) Notice

Rs. 1,03,07,438.73/- (Rupees

One Crore Three Lakh Seven

Thousand Four Hundred Thirty

Eight and Seventy Three

Paise Only) due as on

20.09.2025

Sd/- Authorized Officer, For Yes Bank Ltd

Date & Amount

11.07.2025

Rs. 36,24,446.42/- (Rs.

Thirty Six Lakh Twenty Four

Thousand Four Hundred Forty

Six & Paise Forty Two Only) as

on **09.07.2025**.

11.07.2025

Rs. 22,85,694.60/- (Rs.

Twenty Two Lakh Eighty Five

Thousand Six Hundred Ninety

Four & Paise Sixty Only) as on

09.07.2025.

11.07.2025

Lakh Ninety Two Thousand Two

Hundred & Paise Seventy Four

Only) as on 10.07.2025.

Regional office: B-35, Cyber Media Building,

Sector-32, Gurgaon-122003

Amt. Due as per

Demand Notice

Rs 4,32,614.78

Possession

04.10.2025

04.10.2025

04.10.2025

Date of

Demand

Notice

29.09.2025

Date of

NPA.

27,09,2025

Authorized Officer

SMFG INDIA HOME FINANCE CO. LTD.

Sd/-

Sd/- For IndusInd Bank Limited, Authorised Officer

And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002.

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from

Industind Bank Limited (IBL), their loan credit facility has been classified as Non-Performing Assets in the books of the Bank as per RBI guidelines thereto

Thereafter, Bank has issued demand notices to below mentioned respective borrower under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon

and demanding from them to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s within 60 days from the date of the respective Notice/s, as

per details given below, together with further interest at the contractual rate on the below mentioned, amount and incidental expenses, cost, charges etc.

as stated in the said demand notices. However, the service is also being done by us by way of this publication as per Rule 3 of the Security Interest

Description of the Secured Assets/

Mortgaged Properties

Sundar, North: 12 Ft. Wide Public Lane, South:

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount of more particularly stated in

espective Demand Notices issued, together with further interest thereon plus cost, charges, expenses, etc. thereto failing which we shall be at liberty

toshall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules not limited to

taking possession and selling the secured asset entirely at the risk of the said borrower(s)/co borrower(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)at your

own cost and consequences. Please note that as per section 13(13) of the SARAFESIAct, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease

or otherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent of the Bank. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal

provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard. Please note that as per sub-section (8) or

section 13 of the Act, if the dues of IBL together with all costs, charges and expenses incurred by IBL are tendered to IBL at any time before the date fixed

for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by IBL, and no further step shall be taken by IBL for transfer or sale of that secured

PUBLICATION OF NOTICE U/S 13 (2) OF THE SARFAESI ACT

Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/Co-Borrower(s)/ guarantor(s)/mortgagor(s) who have defaulted in the

repayment of principal and interest of the facilities obtained by them from the Bank and whose facilities accounts have been classified as

Non-Performing Assets (NPA). The notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitization and Re-construction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAES) Act) on their last known addresses, but they have been returned un-

Name of Borrowers

Co-borrower, Mortgagors

1. M/s Mahaveer Apparel's (Borrower)

Through its Partner(s) 2. Mr. Sachin Jain

(Partner/Guarantor/Mortgagor) 3. Mrs.

Rakesh Kumar (Partner /Guarantor/

Mortgagor) 4. M/s Mahavir International

(Guarantor) Through its Prop., Mr. Sachin Jain

Details of secured asset : 1. All that piece and parcel built upon the immovable residential EWS property, Ground Floor, Mahadev

Apartment, Flat No. 134-A, Situated in Block -34, Sector-73, Noida, Dist-Gautam Budh Nagar, UP, having its super area 31 Sq. Mtrs

Boundaries East- Flat 133-A, West- Flat 135-A, North- Entry, South- Open 2. All that piece and parcel built upon the immovable

residential property having plot no. 44, situated at Inder Vihar-B, Gokulpura, Jaipur, Rajasthan, area admeasuring 71.66 Sq. Yds.

The above borrower(s)/co-Borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of

outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said.

Furthermore, this is to bring to your attention that under Section 13 (8) of the Act, in case if the dues together with all costs, charges and

expenses incurred by us are tendered at any time before the date of publication of the notice for public auction/ Sale then Sale shall not

be concluded and secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that

Grihashakti Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Co. Ltd. a Housing Finance Company

[duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)] (hereinafter referred to as "SMHFC") under Secuitisation and

Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers

conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated

mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the

amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers

mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the

public in general that the undersigned has **Taken Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred

on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The

borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon

Description of Secured Assets

(Immovable Property)

Residential Property No. 19/1C, Area Measuring 100

Sq.yds., Covered Area 83.61 Sq.meter Comprising In

Khasra No. 1403 Kin Sitatued At Sector 3 Giri Market

Hadbast Village Loni out of Chakbandi Pargana Tehsil Loni

Distt. Ghaziabad Bounded As Under:- East: Rasta 18ft

Residential Ground Floor Without Roof Rights Covred Areg

58 Sq. Mtrs., Part of Property No. A-323 & Part of A-324,

Block A, Out of Khasra No. 1375, New Panchwati Colony

Pragan Loni Distt. Ghaziabad **Bounded As Under:- East**:

Plot No. A-326 & 321, West: Road 24 Ft Wide, North:

Plot No. A323 Remaining Portion, South: Plot No. A-324

Residential Ground Floor Rhs Witout Roof Righs, Built on

223, Situated At Block B Nearby Rail Vihar Gate, Rail Vihar

Shekhari Awas Samiti Ltd. Hadbast Village Sadullabad

DEMAND

NOTICE

Whereas. The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank issued Demand Notice U/S 13(2) of SARFAESI ACT 2002 to the Borrower / Guarantor / Mortgagor herein in below mentioned consequent upon the dispatch of each

otices through registered post and return back undelivered from the borrower/guarantor/mortgagor address. Through

this publication they are hereby called upon to repay the amount within 60 days from the date of publication for said notice

failing which, bank will take the possession of immovable and movable property/ies and will sell it through the process in exercise of powers conferred U/S 13(2) read with the rule 8 and 9 of the Security Interest (Enrolment) Rules 2002. The

borrower / guarantor / mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the immovable

/ movable property/ies and any dealing with the immovable / movable property/ies mentioned below will be subject to the charge of Canara Bank for the outstanding amounts and Interest thereon & other charges

Description of the

Movable / Immovable Properties

Name of Title Holder: AJAY KUMAR

Borrower: 1. Sh. Ajay Kumar S/o Sh. (Petrol) Registration Number - HR26 EZ Fourteen and Paisa Seventy

Kishan Lal (borrower) 15750 A, 8 Biswa Lal | 0 2 7 7 C h a s s i s N u m b e r - Eight Only) together with further

Kua, Band Colony, Near Govt High School MAT634001NPP19875 Engine Number - Interest and incidental

REVTRN10PXXMM3708

Plot No. 71, Area Measuing 470 Sq.feet out of Khasra No. Rs. 19,92,200.74/- (Rs. Nineteer

Wide **South:-** House Kamla Devi

Pargana & Tehsil Loni Distt Ghaziabad

A Canara Bank

SMFG India Home Finance Co. Ltd.

Regd. Off.: Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No. 111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai – 600116, TN

Registered and Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055

India. Website: www.yesbank.in Email: communications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

12 Ft. Wide Public Lane.

(Enforcement) Rules, 2002 (SARFAES! Rules).

Road, Dehradun, Uttarakhand 248001.

YES BANK

S. Cust ID

34747345

Name and address of Borrower

and Co Borrower/s

1.Mr. Pankaj Sharma (Borrower), 2.Mrs. All that piece and parcel of property bearing

Anju Sharma (Co-Borrower), Address at: Municipal No. 44-42(Old No. 42) Patel Nagar.

54-55E, Calibre Plaza, Bhadaur House, Dehradun, Uttarakhand- 248001, area

Ludhiana, Punjab 141007, Also, at: House No. | measuring 95 sq. mtrs., vide Sale Deed No. 623

16, FF, New Raj Guru Nagar Ext, Ludhiana, dated 12.02.1996 in favour of Mr. Pankaj

Punjab -141012, Also, At: House No. 42, Patel | Sharma, which is bounded as under: East:

Nagar, Bh Shyam Sundar Mandir, Saharanpur House of Others, West: Temple of Shri Shyam

Date: 07.10.2025 Place: Uttarakhand

YES BANK LTD

served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

Boundaries East-Plot No.43, West-Plot No. 44A, North-Road, South-Other Land

Type of

Loan

Export Packing

Credit facilities.

Post Shipment

Credit facility &

Working Capital

Term Loan

60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESIAct.

Dated: 07-10-25 Places: Noida

Name of the Borrower(s)

/ Guarantor(s) LAN

AN :- 609139511798528

LAN :- 620639211798581

LAN :- 620639211888272

. Anuraadha Singh

Place: Ghaziabad, Uttar Pradesh

Name and Address of Borrower(s) / Guarantor(s)

Canara Bank, Wazirpur

Boys, Gurgaon Village, Haryana-122001

Nagar Gurgaon, Haryana – 122001

Gurgaon, Haryana-122001

Canara Bank, DLF Phase III (18181)

Branch

Canara Bank, DLF Phase IV (18245)

Borrower:1. Sh. Prashant Ratan Singh

S/o Sh. Shyam Lal House No. 3385, Laxman

Vihar Phase-1 Gurgaon, Harvana – 122001

Sh. Surender Kumar Tyagi (guarantor) S/o Reshi Dev Tyagi A-21, Surya Vihar,

Canara Bank, Gurgaon DLF Phase-III

Branch

Borrower: 1. M/s Parveen Automobiles

Motor Wings, C Block, Ansal Essencia Sec-

67. Guragon, Haryana- 122011 M/s Dosa

Stories 67 Opposite C-1068, F Block Entry,

Ansal Essencia Sector-67, Gurgaon-122011

Mr. Vinay Kumar Parmar S/o Sh. Ompal

Singh (Prop. M/s Parveen Automobiles and

M/s Dosa Stories 67) Flat No. 1388-A,

Chakkarpur, Wazirabad, Gurgaon- 122002

Canara Bank, PUNHANA HODAL

ROAD (18225)

. Rahul Kumar

Date: 04.10.2025

. Mohd Gulfam

2. Arshi Parveen

1. Rajeev Gupta

2. Pooja Gupta

SMFG

NOTICE is hereby given that the Certificate(s) for Equity 1240 Shares face value Rs. 02/- Dist. Give below 0 RADICO KHAITAN LIMITED. Distinctive-Numbers Name of the Share Folio No.(s) ertificate No To Shares 0032573 REKHA PRAKASHBHAI PATEL AND 62259 5984386 5985625 .T.(1) UMANG PRAKASHBHAI PATE Total 1240 Standing in the name(s)of REKHA PRAKASHBHAJ PATEL, AND J.T.(1) UMANG PRAKASHBHAJ PATEL

CIN: L26941UP1983PLC027278 Regd. Office: -Bareilly Road, Rampur, Uttar Pradesh, 244901

EmailID: info@racico.co.in, Investor@radico.co.in

has/have been lost or mislaid and the undersigned has/have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such within 15day from this date else the company will proceed to issue duplical Name(s) of Shareholder(s) Certificate(s). Place : Ahmedabad Date : 07-10-2025 REKHA PRAKASHBHAI PATEL, (MALTIBEN PRAKASHBHAI PATEL) UMANG PRAKASHBHAI PATEL, (UMANG PRAKASH PATEL) SKYWEB INFOTECH LIMITED

CIN: L72200DL1985PLC019763

Registered Office: K-20, Second Floor, Laipat Nagar - II, New Delhi - 110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307

Website: www.skywebindia.in, E-mail: info@skywebindia.in, Ph. No.: 011-29840906

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/

MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a special window has

been opened for a period of six months i.e. from 7th July, 2025 to 6th January, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of 1st April, 2019 and were returned/rejected/ not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. All transfer requests duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through transfer-cum-demat mode i.e. the shares will be issued only in dematerialised form after transfer. Eligible shareholders may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local

Shopping Centre, New Delhi -110062 by sending an e-mail at beetal@beetalfinancial.com Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly

complete in all respects on or before the above-mentioned deadline i.e 6th January, 2026.

For Skyweb Infotech Limited Date: 6th October, 2025 Akshit Singla

Company Secretary & Compliance Officer

FORM NO. 14 [See Regulation 33(2)] OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001 DEMAND NOTICE NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS &

BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961. RC/435/2024 10.07.2025 CANARA BANK

VERSUS

YASHPAL SINGLA

(CD 1) YASHPAL SINGLA S/O SATISH KUMAR SINGLA, R/O FLAT NO.304, 3RD FLOOR, MANCHESTER-2, MAHAGUN MODERN, SECTOR 78, NOIDA, UP 201301 ALSO AT: - 24/31, IST FLOOR, WEST PATEL NAGAR, NEAR PATEL PARK, PATEL NAGAR, NEW DELHI-110008 ALSO AT:- PROPRIETOR OF M/S STUFF TALKS, B-119, SECTOR-65, NOIDA, UP-201301

(CD 2) RAJEEV KUMAR S/O VED PRAKASH, R/O H.NO.22, RAJPURA PATIALA, PUNJAB-140401 This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders

passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1) in TA/2375/2022 an amount of Rs. 25,79,649.16 along with pendentellite and future interest @11.65% Simple Interest Yearly w.e.f. 19.06.2019 till realization and costs of Rs. 16000.00 (Rupees Sixteen Thousand Only) has become due against you (Jointly and severally/Fully/Limited) You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the

notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of

Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 18.11.2025 at 10:30

a.m. for further proceedings. 5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay: (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice. and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 10/07/2025. RECOVERY OFFICER

DEBT RECOVERY TRIBUNAL, DELHI (DRT 1)



Shriram Finance Ltd.

Registered Off.: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase ndustrial Estate, Guindy, Chennai 600 032

Branch Off: UGF-12-21, Upper Ground Floor, 14 Amba Deed Building, Kasturba Gandhi Marg, Barakhamba

New Delhi -110001. Website: www.shriramfinance.in SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Note: It is informed that "SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED" has been

amalgamated with "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" as per order of NCLT, Chennai. Subsequently the name of "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" was changed as "SHRIRAM FINANCE LIMITED" with effect from 30.11.2022 vide Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated 30-11-2022. Whereas, the undersigned being the authorised officer of Shriram Finance Limited

(SFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 04-0CT-2025.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shriram Finance Ltd. for an amount as mentioned herein below with interest thereon

Borrower's Name & Address

Loan Number RSSDLLP2302280005 1.M/S. AMBITION INC (Borrower) (Rep by its Prop. Vikram Poonia) Add- FIRST FLOOR B-48 SIDE SOUTH PARYAVARAN COMPLEX NEW DELHI-

2. MR. VIKRAM POONIA (Co-Borrower/Guarantor) Add- FLAT NO.204, JANPRATINDHI APT., SEC 28, GURGAON, D.T. MEGHA

MALL, HARYANA-122001 3. MRS. SHIVANI POONIA (Co-Borrower/Guarantor)

Add- FLAT NO.204, JANPRATINDHI APT., SEC 28, GURGAON, D.T. MEGHA MALL, HARYANA-122001 Symbolic possession date-04-0CT-2025

NPA- 3 JULY 2025

Amount due as per Demand Notice

Rs.1,09,98,905/-(One Crore Nine Lakhs Ninety-Eight Thousand Nine Hundred Five Only) as on 14-July-2025 along with further interest together with cost and

Description of Property BASEMENT AND GROUND FLOOR OF THE SAID BUILDING HAVING COVERED AREA

OF BASEMENT 108.302 SQ, MTRS. (1165 SQ.FT.) & GROUND FLOOR 108.302 SQ. MTRS. (1165 SQ.FT.) WITH PROPORTIONATE INDIVISIBLE, IMPARTIBLE RIGHTS IN THE PLOT OF LAND BEARING NO. 2881 MEASURING 214 SQ. YDS. SITUATED IN RESIDENTIAL COLONY KNOWN AS SECTOR-46, GURUGRAM (HARYANA), WITH USAGE OF COMMON SPACES IN THE SAID BUILDING LIKE STAIRCASE, STAIRCASE LANDINGS ON ALL FLOORS, COMMON LOBBY AND PASSAGE ON ALL FLOORS, ENTRANCE AND EXIT OF THE SAME, WATER SUPPLY AND WATER TANK ON GROUND FLOOR, POWER, LIGHT, SEWER ARRANGEMENTS ETC. ALONG WITH PROPORTIONATE SHARE IN PLOT OF LAND AND TOP TERRACE TOGETHER WITH ALL EASEMENTARY RIGHT. BOUNDED ON THE AS PER SITE: EAST: NE: OTHER PROPERTY. WEST: SW: ROAD. NORTH: NW: PLOT NO 2882 SOUTH: SE: PLOT NO

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Place: Gurgaon Sd/- Authorised Officer

Date: 04-10-2025. Shriram Finance Limited

Borrower: 1. Sh. Raj Karan Yadav S/o Sh. Immovable: House No. 795/22, measuring Thirty Five and Paisa Thirty Bani Singh Yadav (borrower) House No. 100 Sq Yds, having covered area 200 Sq. Ft Only) together with further 795/22, Gandhi Nagar Gurgaon, Haryana – 122001 Sh. Dharambir S/o Sh. Bani Singh situated at Gandhi Nagar, Gurgaon Yaday (guarantor) House No 795/22, Gandhi Haryana - 122001

Name of Title Holder: Mr. Raj Karan & Mr

Name of Title Holder: Mr. Prashant Ratar Immovable: Residential House measuring 60 Sq Yds situated at Khasra No.

13943/2911/2/2/2/2, Laxman Vihar, Gurgaon, Haryana - 122001

Movable: Tata Punch PUR 1.2P BS6 MT (Rupees Four Lakh Thirty Two

interest and incidental expenses, costs. Rs 25.13.434.45 Rupees Twenty Five Lacs hirteen Thousand Four Movable: Hypothecation of present and Hundred Thirty Four and Paisa

orty Five Only) together with expenses, costs. Movable: Hypothecation of Plant & Machinery-Rs. 5.03,722.00

Rs 8,55,388.77 Date of

Rupees Eight Lakh Fifty Five Demand Notice 9.09.2025 Date of NPA 28.09.2025

expenses, costs. Rs 7.33.935.30 Date of Rupees Seven Lakh Thirty Demand hree Thousand Nine Hundred Notice interest and incidental expenses, costs.

29.09.2025 Date of NPA 28.09.2025 Date of Rs 11,42,905.57 Rupees Eleven Lakh Forty

Demand Notice Two Thousand Nine Hundred 29.09.2025 Five and Paisa Fifty Seven Only) together with further Date of NPA

28.09.2025 Date of Demand Notice

5-09-2025 Date of NPA 14.08.2025 Movable:

New Delhi

Name of Title Holder: M/s Parveer utomobiles, Loan No (125002553135) future stock -Rs, 8,00,000.00 Name of Title Holder: M/s Parveen further interest and incidental Automobiles, Loan No (170005992717)

Name of Title Holder: M/s Dosa Stories 67, Loan No (125003793860). Hypothecation of present and future stock -Rs. 2,00,000.00. Name of Title Holder: Mr Vinay Kumar Parmar, Loan No (161001843444). Movable: Hypothecation of Vehicle Hyundai ALCAZAR, HR98 L 9436 Chassis No. MALPC816VPM620474 Engine No. G4LHPM606147

Thousand Three Hundred Eighty Eight and Paisa Seventy Seven Only) together with Punhana Mewat, Haryana - 122508 Smt. Name of Title Holder: M/s Bansal Metal further interest and incidental expenses, costs

> building G+2 storied measuring 44.44 Sq Yds i.e. 37.16 Sq Mtr situated at ward no. 9, Village Nakanpur, Tehsil-Punhana, Mewat-122508 Boundaries of the property: North: Punjabi Barat Ghar: South: Punhana-Bass Dalla Rasta East: Others property West: Others property Place:Gurgaon

Date: 07.10.2025 epaper.financialexpress.com

CIN: L26941UP1983PLC027278 Regd. Office: -Bareilly Road, Rampur, Uttar Pradesh, 244901 Email D: Info@radico.co.in, Investon@radico.co.in IOTICE is hereby given that the Certificate(s) for Equity 1240 Shares face value Rs.02/- Dist. Give below C RADICO KHAITAN LIMITED. Folio No.[s] Name of the Share Distinctive-Numbers 0032573 REKHA PRAKASHBHAI PATEL AND 62259 5984386 5985625 1240 J.T.(1) UMANG PRAKASHBHAI PATEI Total 1240 Standing in the name(s) of REKHA PRAKASHBHAI PATEL, AND J.T.(1) UMANG PRAKASHBHAI PATEL has/have been lost or mistaid and the undersigned has/have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company within 15day from this date else the company will proceed to issue duplicate. Place : Ahmedabad Date : 07-10-2025 REKHA PRAKASHBHAI PATEL, (MALTIBEN PRAKASHBHAI PATEL)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रिज. कार्यालय : 09, कांम्मुनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohouseingfinance.com । सीआईएनः U65192DL2016PLC30148 संपर्क पताः चौथी मंजिल, वन61st बिजनेस एवेन्यू, कमर्शियल प्लॉट नंबर 161, मंगल पांडे नगर, यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004। कब्जा सुचना (अचल संपत्ति के लिए)

UMANG PRAKASHBHAI PATEL, (UMANG PRAKASH PATEL)

परिशिष्ट IV प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ का नियम ८(1) के तहत

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002, के तहत एक डिमांड नोटिस जारी किया है। जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था

उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर एतद्दवारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से दंडात्मक ब्याज शुल्क लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(ओं) /कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि (ओं) का नाम	मांग सूचना की तारीख/ मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तारीख (रचनात्मक/ भौतिक)
HHFMEELAP	मोहम्मद जीशान, मोहम्मद आरिफ,	19.07.2025 रु.1030166/-	03.10.2025
23000044200	मुस्ताक की पत्नी सईदा	10.07.2025 को	(प्रतीकात्मक)

सुरक्षित संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरणः दो मंजिला मकान, पुराना नगर निगम नंबर 44, साबिक नंबर 373 और 180, हॉल नंबर 206, क्षेत्रफल 260.87 वर्ग मीटर यानी 312 वर्ग गज, सरदार पटेल गंज जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002, उत्तर में 18 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व में अनवर का मकान, दक्षिण में अन्य की संपत्ति, पश्चिम में मीनू की संपत्ति दिनांक:- 07.10.2025, हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

optiemus

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

CIN: L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - 11, नई दिल्ली - 110024 कॉपोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201307 वेबसाइट: www.optiemus.com, ई-मेल: info@optiemus.com, **फ़ोन नं.** 011-29840906

शेयरधारकों को भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो खोलने की सूचना

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी परिपन्न संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/ CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, स्थानांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने की सुविधा के लिए छह महीने की अवधि अर्थीत 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है. जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण वापस कर दिए गए/अस्वीकार कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

उपरोक्त अवधि के दौरान विधिवत रूप से सुधारे गए और पुनः दाखिल किए गए सभी स्थानांतरण अनुरोधों को स्थानांतरण-सह-डीमैट मोड के माध्यम से संसाधित किया जाएगा, अर्थात स्थानांतरण के बाद शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे।

पात्र शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्युटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली -110062 से beetal@beetalfinancial.com पर ईमेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं।

पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने स्थानांतरण अनुरोध सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण करके उपर्युक्त समय सीमा अर्थात 6 जनवरी, 2026 तक या उससे पहले जमा करें।

> कृते ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड हस्ता./ विकास चंद्र

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: ६ अक्टूबर, २०२५ स्थानः नोएडा (उत्तर प्रदेश)

SHRIRAM

स्थान:- मेरठ

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM C/ty

पंजीकृत कार्यालयः श्री टावर्स, प्लॉट नंबर 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल

स्टेट, गिंडी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालयः यूजीएफ-12-21, अपर ग्राउंड फ्लोर, 14 अंबा डीड बिल्डिंग, कस्तुरबा गांधी मार्ग, बाराखंभा

नई दिल्ली-110001, वेबसाइटः www.shriramfinance.in प्रतीकात्मक कब्जे की सूचना

टिप्पण : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार 'श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड' को 'श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' के साथ मिला दिया गया है। इसके बाद, दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसरण में निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया।

चूँकि, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किए, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस दिन 04-अक्टबर-2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार निम्न उल्लिखित राशि के साथ ब्याज, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का नाम और पता

ऋण संख्या RSSDLLP2302280005

1. मेसर्स एम्बिशन इंक (उधारकर्ता) (इसके प्रोप. विक्रम प्रनिया द्वारा प्रतिनिधित्व)

पता— प्रथम तल बा—48 साइंड साउथ पयावरण काम्प्लक्स नई दिल्ला—110030

2 श्री विक्रम पूनिया (सह-उधारकर्ता / गारंटर) पता— फ्लैट संख्या 204, जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट, सेक्टर 28, गुड़गांव, डी.टी. मेघा

मॉल. हरियाणा-122001 श्रीमती शिवानी पुनिया (सह—उधारकर्ता / गारंटर)

पता— फ्लैट संख्या 204, जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट, सेक्टर 28, गुडगांव, डी.टी. मेघा मॉल, हरियाणा—122001

प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि– 04 अक्टूबर 2025

एनपीए- 3 जुलाई 2025 डिमांड नोटिस के अनुसार देय राशि

14 जुलाई 2025 तक रू.1,09,98,905/-

(एक करोड नौ लाख अट्ठानवे हजार नौ सौ पाँच रुपये मात्र) अतिरिक्त ब्याज, लागत और शुल्क सहित।

संपत्ति का विवरण

आवासीय कॉलोनी जिसे सेक्टर—46, गुरुग्राम (हरियाणा) के रूप में जाना जाता है में स्थित उक्त भवन का बेसमेंट और भूतल, बेसमेंट का आच्छादित क्षेत्रफल 108.302 वर्ग मीटर (1165 वर्ग फीट) और भूतल 108.302 वर्ग मीटर (1165 वर्ग फीट) के भूमि 🛭 के प्लॉट संख्या 2881 में आनुपातिक अविभाज्य, अविभाज्य अधिकारों के साथ 214 वर्ग गज माप , उक्त इमारत में सामान्य स्थानों का उपयोग जैसे सीढी, सभी मंजिलों पर सीढी लैंडिंग, सभी मंजिलों पर सामान्य लॉबी और मार्ग, उसी का प्रवेश और निकास, भृतल पर पानी की आपूर्ति और पानी की टंकी, बिजली, प्रकाश, सीवर व्यवस्था आदि, भूमि के भूखंड और ऊपरी छत में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ–साथ सभी सुखभोगी अधिकार शामिल है। साइट के अनुसार चौहद्दी : पूर्वः उत्तर पूर्वः अन्य संपत्ति। पश्चिमः दक्षिण पश्चिमः सडक। उत्तरः उत्तर पश्चिमः भूखंड संख्या 2882 दक्षिणः दक्षिण पूर्वः भूखंड संख्या 2880,

Disclosure of the Voting Pattern

Place: Mumbai

Date: October 06, 2025

14. Details of Independent Advisors, if None

Any other matter(s) to be highlighted None

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थानः गुडगाँव हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 04.10.2025 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंडर, मुंबई- 400 001 Mahindra FINANCE कॉपोरेंट कार्यालयः बी विंग, उरी मंजिल, अगस्त्य कॉपोरेंट पार्क, पिरामल एमिटी बिल्डिंग, सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट, मुंबई - 400 070

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

जैसाकि आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** से ऋण प्राप्त किये हैं। आप सभी के द्वारा की गई चुक के परिणामस्वरूप, आपका ऋण खाता गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वगीर्कृत किया गया है। चुंकि अधिनियम के तहत एक सरक्षित लेनदार के रूप में **महिंद्रा एंड** महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सुचना जारी कर कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को सचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज सहित सचना में उल्लिखित राशि का भगतान करने का निर्देश दिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता सं. और ऋण राशि	प्रतिभति का विवसा	एनपीए की तिथि और मांग सूचना की तिथि	तिथि को
1. श्री अजय कुमार पुत्र रघुबीर चंद (उधारकर्ता) 2. श्री रघुवीर सिंह पुत्र प्रेम चंद (सह-उधारकर्ता)	स्वीकृति पत्र संदर्भ सं.: 9362968 दिनांकः 01.03.2017 ऋण सं./अनुबंध सं.: ISBL00117037493 ऋण राशिः रू. 7,00,000/- (केवल सात लाख रुपये)	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण: मद सं1 348.33 वर्ग गज के भूखंड/संपत्ति का पूराभाग और टुकड़ा, जो ग्राम बेबीयाल, जिला अंबाला, हरियाणा 133001 में स्थित है। सीमाएं: पूर्व में: बंद गली, पश्चिम में: चानन राम, उत्तर में: वेद प्रकाश, दक्षिण में: माडुकाहार	15.04.2018 मांग सूचना	रू. 20,22,560.26/- (केवल बीस लाख बाईस हजार पाँच सौ साठ रुपये और छब्बीस पैसे) 22.09.2025 को

इसलिए, कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को सूचना दिया जाता है, कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई कुल राशि का भगतान करें, क्योंकि यह राशि कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि तक संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों के साथ कुल राशि नहीं चुकाई जाती है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कॉलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभृति हित को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतू बाध्य होगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को कानन के तहत उक्त वित्तपोषकों के लिये उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह- रहित है। आपसे आगे यह भी अनुरोध है कि आप यह ध्यान रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सहमित के बिना उपरोक्त प्रतिभृति का निपटान करने या उसे बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांक: 07.10.2025 स्थान: अंबाला, हरियाणा हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

(T) IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 4/65 भूतल, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 दूरभाष: 011 46465263, 66083001, 9810449799

साँकेतिक अधिग्रहण सूचना

एतदद्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत सूचित किया जाता है कि बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर को निम्न तालिका में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को मांग सचनायें निर्गत की थीं, जिनमें उनसे उक्त सचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि, वे निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उन्हें तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां निम्न तालिका में उधारकर्ता के नाम के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें। सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, उनके अर्थात उधारकर्ताओं के नामों के समक्ष अंकित राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज व शुल्कों हेत **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि	बंधककृत संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि
1.	श्री नरेश कुमार ("उधारकर्ता") तथा श्रीमती सुनील पत्नी नरेश कुमार (सह—उधारकर्ता)	21-06-2025	04-10-2025	टॉवर नं. ३सी, ग्रैंड स्क्वॉयर	आवास ऋण रु. 34,28,816/— (रुपये चौंतीस लाख अड्डाईस हजार आठ सौ सोलह मात्र) 01—06—2025 के अनुसार, राशि पर 02.06.2025 से प्रभावी ब्याज सहित
दिन	। कि : 07—10—2025, स्थान : नः	ई दिल्ली			हस्ता./—, प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

DECCAN BEARINGS LIMITED

("Target Company")

Corporate Identification Number: L29130MH1985PLC035747 Registered Office: 136, B Wing, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai 400072, Maharashtra, India

Tel. No.: +91 9223400434; E-mail: deccan.bearings9@gmail.com Website: www.deccanbearings.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Deccan Bearings Limited (hereinafter referred to as "The Target Company") by Pareshbhai Gushabhai Satani ("ACQUIRER 1"), Tanuj Pareshkumar Satani ("ACQUIRER 2"), Chirag Ramjibhai Satani ("ACQUIRER and Ramjibhai Gushabhai Satani ("ACQUIRER 4") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"). along with Satani Karan Vitthalbhai (PAC 1), Satani Purvi Vitthalbhai (PAC 2), Satani Arunbhai Ravjibhai (PAC 3), Satani Ashwinbhai Ravjibhai (PAC 4), Manoj Dhanjibhai Satani (PAC 5) and Paras Dhanjibhai Satani (PAC 6) (hereinafter collectively referred to as PACs) under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

1.	Date	October 07, 2025				
2	Name of the Target Company (TC)	Deccan Bearings Limited				
Details of the Offer pertaining to TC		Open offer for the acquisition of up to 52,00,000 (Fifty Two Lakhs) fully paid-up Equity Shares having a face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) ("Offer Shares"), representing 26,00% (Twenty-Six Percent) of the Expanded Voting share capital of the Target Company on a fully diluted basis, as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer, for cash at a price of ₹ 10/- (Rupees Ten only) per equity share, from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer"). It is to be noted that the shares held by persons other than the promoters during the open offer period which are under lock-in are not permitted to be tendered in the open offer in accordance with Regulation 167(2) of the SEBI (ICDR) Regulations and if tendered shall not be accepted in the Open Offer. The Public Announcement dated April 28, 2025 (Addendum), the Detailed Public Statement dated April 29, 2025 ("DPS"), the Draft Letter of Offer dated May 07, 2025 ("DLOF"), the Letter of offer dated October 01, 2025 ("LOF") and the Corrigendum to the DPS dated October 06, 2025 ("Corrigendum") have been issued by Corpwis Advisors Limited on behalf of the Acquirers.				
4.	Name(s) of the Acquirers and PAC with the acquirer	 Pareshbhai Gushabhai Satani ("Acquirer 1"), Tanuj Pareshkumar Satani ("Acquirer 2"), Chirag Ramjibhai Satani ("Acquirer 3") Ramjibhai Gushabhai Satani ("Acquirer 4") Satani Karan Vitthalbhai ("PAC 1") Satani Purvi Vitthalbhai ("PAC 2) Satani Arunbhai Ravjibhai (PAC 3), Satani Ashwinbhai Ravjibhai (PAC 4), Manoj Dhanjibhai Satani (PAC 5) and Paras Dhanjibhai Satani (PAC 6) 				
5.	Name of the Manager to the offer	Corpwis Advisors Private Limited Address: G-07, Ground Floor, The Summit Business Park, Andheri Kurla Road, Behind Guru Nanak Petrol Pump, Andheri East, Chakala MIDC, Mumbai, Maharashtra, India, 400093 Tel No.: +91 22 4972 9990; Fax No.: NA; Email: openoffer.deccan@corpwis.com; Website: www.corpwis.com; Investor Grievance Email: investors@corpwis.com; SEBI Registration Number: INM000012962; Validity: till 31.01.2028 Contact Person: Nikunj Kanodia				
6,		Ms Akansha Vaid (DIN : 02796417) - Chairperson Mr. Nitin Oza (DIN : 03198502) - Member Mr. Nishith Trivedi (DIN : 10332082) - Member Mr. Ajay Jagdishbhai Gohel - (DIN : 10989812) - Member				
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	The members of the IDC are independent directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any equity shares or have entered into any contract or have any other relationship with the Target Company.				
В.	Trading in the Equity shares / other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any equity shares / other securities of the Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement and the period from the date of the Public Announcement till the date of this recommendation.				
9.	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers.				
0.	Trading in the Equity shares / other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable				
1.		The IDC is of the opinion that as of the date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 10/- (Indian Rupees Twelve) per equity share offered by the Acquirer is (a) in accordance with the regulation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations, and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable. Shareholders should independently evaluate the Offer and make an informed decision.				
2.	recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be	The shares of the company are not frequently traded. The current market price is Rs 108.45 per share, but the shares are under GSM Surveillance Stage 4 and as per the BSE the EPS for the four trailing quarters is zero. The open offer price is based on the valuation report submitted by a registered IBBI Valuer. Hence the open offer price of ₹10 per equity share is fair and reasonable. The statement of recommendation will be available on the website of the company at www.deccanbearings.in.				
860	PRODUCE STATE OF THE CALCULATION OF THE SEC.					

स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड

CIN: L72200DL1985PLC019763

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - ॥, नई दिल्ली - 110024 कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइट: www.skywebindia.in, ई-मेल: info@skywebindia.in, फोन नं.: 011-29840906

शेयरधारकों को भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो खोलने की सूचना

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, स्थानांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने की सुविधा के लिए छह महीने की अवधि अर्थात 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी. 2026 तक के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण वापस कर दिए गए/अस्वीकार कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

उपरोक्त अवधि के दौरान विधिवत रूप से सुधारे गए और पुनः दाखिल किए गए सभी स्थानांतरण अनुरोधों को स्थानांतरण-सह-डीमैट मोड के माध्यम से संसाधित किया जाएगा, अर्थात स्थानांतरण के बाद शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे। पात्र शेयरधारक कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट अर्थात मेसर्स

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली -110062 से beetal@beetalfinancial.com पर ईमेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने स्थानांतरण अनुरोध सभी प्रकार से विधिवत

पूर्ण करके उपर्युक्त समय सीमा अर्थात 6 जनवरी, 2026 तक या उससे पहले जमा करें।

कृते स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड दिनांक: ६ अक्टूबर, 2025 अक्षित सिंगला

स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT, DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF DECCAN BEARINGS LIMITED

Corporate Identification Number: L29130MH1985PLC035747 Registered Office at: 136, B Wing, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka Andheri (East), Mumbai - 400072, Maharashtra, India Tel. No.: +91 9223400434; E-mail: deccan.bearings9@gmail.com

Website: www.deccanbearings.in OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 52,00,000* (FIFTY-TWO LAKHS) FULLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ? 10/- EACH ("OFFER SHARES") REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EXPANDED CAPITAL OF THE COMPANY ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE 10TH (TENTH) WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OPEN OFFER, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 10/- (RUPEES TEN ONLY, PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") BY PARESHBHAI GUSHABHAI SATANI ("ACQUIRER 1"), TANUJ PARESHKUMAR SATANI ("ACQUIRER 2"), CHIRAG RAMJIBHAI SATANI ("ACQUIRER 3") AND RAMJIBHAI GUSHABHAI SATANI ("ACQUIRER 4") (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS"), ALONG WITH SATANI KARAN VITTHALBHAI (PAC1), SATANI PURVI VITTHALBHAI (PAC2), SATANI ARUNBHAI RAVJIBHAI (PAC3), SATANI ASHWINBHAI RAVJIBHAI (PAC 4), MANOJ

DHANJIBHAI SATANI (PAC5) AND PARAS DHANJIBHAI SATANI (PAC6) (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS PACs) PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER") *Public Shareholders hold 54,80,861 (Fifty-Four Lakhs Eighty Thousand Eight Hundred and Sixty-One only) (both the existing public shareholders who hold 4,28,622 shares and the proposed preferential allottees who are being allotted 50,52,239 Equity Shares in the proposed preferential allotment) Equity Shares which in the aggregate represents 27.40% (Twenty-Seven Point Four Zero Percent) of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company.

This Corrigendum to the Public Announcement (*PA*), Addendum to the Public Announcement (Addendum), Detailed Public Statement ("DPS") and Draft Letter of Offer ("DLOF") ("Corrigendum") is being issued by Corpwis Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), for and on behalf of the Acquirers and the PACs to the Public Shareholders of the Target Company. This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with (a) PA dated April 22, 2025; (b) Addendum to the Public Announcement dated April 28, 2025 (c) the DPS dated April 29, 2025 that was published in (a) Financial Express (English) all over India; (b) Jansatta (Hindi) all over India; and (c) Mumbai Lakshadeep (Marathi) in Mumbai; and (d) the DLOF dated May 07, 2025. This Corrigendum is being published in all Newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meanings assigned to such terms in the DPS, the DLOF and the Letter of Offer dated October 01, 2025 ("LOF"), as the context may require. The Public Shareholders of the Target Company are requested to note the following developments/amendments and revisions with respect to PA, Addendum, DPS and DLOF. The LOF has been suitably updated for the changes and comments issued by SEBI in accordance with SEBI (SAST) Regulations. Public shareholders are requested to note the following material update/addition to the DLOF, in relation to the open offer. The page numbers referenced in this corrigendum correspond to those of the LOF.

. The revised schedule of activities is as under

Activity	Original Schedule (Day and Date)	Revised Schedule (Day and Date) (1)
Date of Public Announcement	Tuesday, April 22, 2025	Tuesday, April 22, 2025
Date of publication of Detailed Public Statement in the newspapers	Tuesday, April 29, 2025	Tuesday, April 29, 2025
Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday, May 07, 2025	Wednesday, May 07, 2025
Last date for public announcement of competing offer(s) (2)	Thursday, May 22, 2025	Wednesday, May 14, 2025
Last date for receipt of comments from SEBI on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Open Offer)	Thursday, May 29, 2025	Tuesday, September 23, 2025 ⁽³⁾
Identified Date ⁽⁴⁾	Monday, June 02, 2025	Thursday, September 25, 2025
Last date by which the Letter of Offer to be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Monday, June 09, 2025	Friday, October 03, 2025
Last date for upward revision of the Offer Price and/or Offer Size	Thursday, June 12, 2025	Wednesday, October 08, 2025
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company is required to publish its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer	Thursday, June 12, 2025	Wednesday, October 08, 2025
Date of publication of Open Offer opening Public Announcement in the newspapers in which the DPS has been published	Friday, June 13, 2025	Thursday, October 09, 2025
Date of commencement of the Tendering Period ("Offer Opening Date")	Monday, June 16, 2025	Friday, October 10, 2025
Date of closure of the Tendering Period ("Offer Closing Date")	Friday, June 27, 2025	Monday, October 27, 2025
Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Friday, July 11, 2025	Tuesday, November 11, 2025
Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspapers in which the DPS has been published	Friday, July 18, 2025	Tuesday, November 18, 2025
1. Where last dates are mentioned for certain activities, such activities	s may take place on or before t	he respective last dates.

- 2. There is no competing offer to this Offer.
- Actual date of receipt of SEBI observations on the DLOF.
- Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent by email. It is clarified that all the equity shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Seller, Promoters and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer. Further shares which are under lock-in and held by persons other than promoters cannot be tendered in the open offer and if tendered will not be accepted.
- The following paragraph has been added, "It is to be noted that the shares held by persons other than the promoters during the open offer period which are under lock-in are not permitted to be tendered in the open offer in accordance with Regulation 167(2) of the SEBI (ICDR) Regulations and if tendered shall not be accepted in the Open Offer." In the cover page, pages 10, 11, 17 The words "Emerging Voting Capital" has been replaced with the words "Expanded Voting Capital" throughout the Letter of Offer.
- Satani Karan Vitthalbhai (PAC1), Satani Purvi Vitthalbhai (PAC2), Satani Arunbhai Ravjibhai (PAC3), Satani Ashwinbhai Ravjibha (PAC4), Manoj Dhanjibhai Satani (PAC5) and Paras Dhanjibhai Satani (PAC6) have been included as "Persons Acting in Concert with the Acquirers. Their residential address has been included in the Cover Page. Their contact details and their experience have been included in pages 22 and 23 of the Letter of Offer.
- Vitthalbhai Gushabhai who is the brother of Acquirer 1 and Acquirer 4, has been shown as a part of the promoter group in the pre and post shareholding pattern of the Target Company table on Page 31 / 32 of the Letter of Offer.
- The Letter of Offer has been updated to include the acquisition of 5,000 shares by Vitthalbhai Gushabhai, 25,000 shares by Satani Karan Vitthalbhai (PAC1), 5,000 shares by Satani Purvi Vitthalbhai (PAC2), 10,000 shares by Satani Arunbhai Ravjibhai (PAC3), 5,000 shares by Satani Ashwinbhai Ravijbhai (PAC4), 5,000 shares by Manoj Dhanjibhai Satani (PAC5) and 5,000 shares by Paras Dhanjibhai Satani (PAC6), aggregating 60,000 shares constituting 0.33% in the expanded voting capital of the Target Company in the proposed preferential allotment
- The sentence, "The consent of the members of the Target Company for the proposed preferential issue as mentioned above has been obtained t at the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") to be held on May 27, 2025. The in-principle approval from the BSE was received on June 24, 2025, shares were allotted on June 28, 2025, and on July 03, 2025 and listing approval has been obtained on July 17, 2025 and trading approval for these shares has been obtained from the BSE on August 14, 2025 and August 17, 2025 which has been included in Paragraph III A 4 on Page 15 of the Letter of Offer.
- Paragraph VI (v) on Page 26 of the Letter of offer reads as, "As on date of this Letter of Offer, the Authorized Share Capital of the Target Company is Rs. 20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crores Only) divided into 2,00,00,000 (Two Crore) equity shares of Rs. 10/- each., duly approved by the shareholders at their meeting held on May 27, 2025. The Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital of the Target Company as on the date of this Letter of Offer is ₹ 20,00,00,000 (Rupees Twenty Crore Only) comprising of 2,00,00,000 (Two Crores) Equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each.
- The financial statements of the target company on page 28 and 29 of the Letter of Offer have been updated to include the profit and loss account and balance sheet for the financial years ended March 31, 2025, March 31, 2024, and March 31, 2023. 10. OTHER INFORMATION
- Except as detailed in this Corrigendum, all other terms, conditions and contents of the Open Offer and the DPS remain unchanged, The aforementioned developments/ amendments have been incorporated in the DLOF/ LOF.
- The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum (other than such information which has been obtained from the public sources or provided or relating to and confirmed by the Target Company), and also for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments made thereof and undertakes to comply and full the same.
- ISSUED BY THE MANAGER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS AND THE PACS

This Corrigendum will also be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

Place : Mumbai

For and behalf of

Nishith Trivedi

Deccan Bearings Limited

The Committee of Independent Directors of

Chairperson - Committee of Independent Directors

Date: October 06, 2025

COFPWIS COLPORATE WISDOM

Corpwis Advisors Private Limited

Address: G-07, Ground Floor, The Summit Business Park, Andheri Kurla Road Behind Guru Nanak Petrol Pump, Andheri East, Chakala MIDC Mumbai, Maharashtra, India, 400093

Tel No.: +91 22 4972 9990; Fax No.: NA Email Id: openoffer.deccan@corpwis.com

Website: www.corpwis.com

Investor Grievance ; investors@corpwis.com SEBI Registration Number: INM000012962; Validity: till 31.01.2028

Contact Person: Nikuni Kanodia

epaper.jansatta.com

The recommendations were unanimously approved by the members of IDC.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying

the statement is in all material respect true and correct and not misleading whether by omission of any information

or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Company under the Takeover Code.